



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2007/पौष 5, 1929

No. 563]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2007/PAUSA 5, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 787(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् नियमावली, 2006 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई 7-12-2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 762(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा I(ग) में किए गए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

“(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

- |   |              |
|---|--------------|
| (i) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.)<br>तमिलनाडु सरकार     | —सदस्य, पदेन |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.)<br>त्रिपुरा सरकार    | —सदस्य, पदेन |
| (iii) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.)<br>झारखण्ड सरकार    | —सदस्य, पदेन |
| (iv) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.)<br>मध्य प्रदेश सरकार | —सदस्य, पदेन |
| (v) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.)<br>उड़ीसा सरकार       | —सदस्य, पदेन |

(vi) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.)

—सदस्य, पदेन”

राजस्थान सरकार

[फा. सं. 24011/5/2005/एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th December, 2007

G.S.R. 787(E).—In partial modification of notification No. G.S.R. 762(E) dated 7-12-2007 issued by the Ministry of Rural Development in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) read with Rules 3 and 4 of the National Employment Guarantee Council Rules, 2006, the nomination for representatives of the State Governments made in para 1(c) thereof may be substituted by the following :

“(c) Representatives of the State Governments :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| (i) Principal Secretary/Secretary (RD)<br>Government of Tamil Nadu     | —Member,<br>Ex-officio  |
| (ii) Principal Secretary/Secretary(RD)<br>Government of Tripura        | —Member,<br>Ex-officio  |
| (iii) Principal Secretary/Secretary(RD)<br>Government of Jharkhand.    | —Member,<br>Ex-officio  |
| (iv) Principal Secretary/Secretary(RD)<br>Government of Madhya Pradesh | —Member,<br>Ex-officio  |
| (v) Principal Secretary/Secretary(RD)<br>Government of Orissa.         | —Member,<br>Ex-officio  |
| (vi) Principal Secretary/Secretary(RD)<br>Government of Rajasthan      | —Member,<br>Ex-officio” |

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.